




Ministry of Health & Family Welfare  
Government of India

*Provisional Certificate  
for COVID-19 Vaccination  
(1 st Dose)*



Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम  
BOOVARAGHAVAN T

Age / उम्र  
42

Gender / लिंग  
Male

ID Verified / पहचान पत्र सत्यापित  
PAN Card # CAFPB7853R

Beneficiary Reference ID  
31572765312364

Residing at / पता  
Tiruvallur  
Tamil Nadu

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम  
COVISHIELD

Date of Dose / खुराक की तारीख  
27 Jan 2021 (Batch no. 4120Z009)

Next Due Date / अगली नियत तिथि  
after 28 days

Vaccinated by / टीका लगाने वाले का नाम  
E Tamil Selvi

Vaccination at / टीकाकरण का स्थान  
Kollumedu Upgraded PHC, Tiruvallur  
Tamil Nadu

“ दवाई भी और कड़ाई भी।  
Together, India will defeat COVID-19 ”  
- Prime Minister Narendra Modi



In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/Healthcare Worker/District Immunization Officer/State Helpline No. 1075

टीकाकरण पश्चात किसी प्रतिकूल घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें